

Revalidation upto 17/10/2021 applied to Noida Authority vide letter no. JIL/NOIDA/ 2016/693 dated 08th Nov2016 for RESIDENTIAL CLUSTER -B4

UPTO DATE APPROVALS FROM NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

Agency :- M/s. Jaypee Infratech Ltd., Sector-128 Noida

Total Land = 453 Acres (Layout Plan Approved vide no. NOIDA/CAP/07/472 dated 31.10.07 & NOIDA/AP/2008/27 dated 29.08.08)

Break-up of Land Use

Residential	- 63%	285.39 acres
Commercial	- 4%	18.12 acres
Institutional	- 9%	40.77 acres
Recreational	- 12%	54.36 acres
Road	- 12%	54.36 acres

Overall FAR = 150

Total FAR Area = 2749936.50 Sqm.

S.No.	Description	Land Use	Date of Approval	Approved FAR (Sqm.) by NOIDA till date	Commulative Approved FAR area (Sqm.)	Balance FAR (Sqm.)	Remarks
1	Primary School	I-5	Institutional	24.11.2008	10026.23	10026.23	2739910.27
2	Secondary School	I-7	Institutional	24.11.2008	14006.13	24032.36	2725904.14
3	Group Housing B1/B2/B3	B1/B2/B3	Residential	24.03.2009	323628.295	347660.655	2402275.845
4	Group Housing B4	B4	Residential	29.10.09	253144.64	600805.295	2149131.205
					600805.295		

Map for proposed Building is as per Sr
have Submitted for approval please.

21.10.09

21.10.09

21.10.09

राजपाल कौशिक
वरिष्ठ नगर नियोजक
नौएडा

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/भ0प्र0/09/ III-162/129

दिनांक: - 29/11/19

सेवा में,

M/s Jaypee Infratech Limited.
J. A. House, 63 Basant Lok,
Basant Vihar, New Delhi-11057

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.09 के संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तावित **आवासीय भवन निर्माण की भूखण्ड सं0 बी -04(PT-1, PT-2, PH-1/PH-2/PH-3/PH-4/TH-1 & TH2), सेक्टर -128, नोएडा** पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम **दो वर्ष** (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है, भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

Part Sanction for Group Housing

Total Land area as per Sanctioned Layout Plan	453 Ac.
Total Land for Residential Land use	285 Ac.
Area Under Group Housing	266 Ac.
Area Under Plotted Development	19 Ac.
Proposed Group Housing Pocket	B-4
Total Plot Area for Group Housing	266 Ac.
Permissible Ground Coverage	30% 78.90 Ac.
Permissible FAR	200% 532.00 Ac.
Sanctioned Area for Group Housing	323628.205 Sqm.
Proposed Covered Area detail for housing – As per plan and table(Attached).	253144.64 Sqm.
Total	<u>576772.935 Sqm.</u>

प्रतिलिपि

महाप्रबन्धक(.....) को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Map for proposed Building is as per the
laws. Submitted for approval please.

M. A. S. S.

M. A. S. S.

M. A. S. S.

नाम
पद
नौएडा
राजदील कोशिक
वरिष्ठ नगर नियोजक
नौएडा

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/ III - 265/497

दिनांक: 19/1/12

सेवा में,

मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

सेक्टर : 128

नोएडा

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.11 संदर्भ में आपके द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे (पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे) के अन्तर्गत निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों के तहत **पाकेट सं0 बी-5, (Knight Court) सेक्टर -128, नोएडा** में हस्तान्तरित भूमि पर टाऊनशिप विकसित करने के लिए निर्धारित आवासीय उपयोग हेतु भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण के प्ररियोजना अभियन्ता के साथ समन्वय करने एवं निरीक्षण के उपरान्त ही संस्था उसे ढकेगी।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते संस्था को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
16. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंगन है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उ त्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन को प्रयोग में नहीं ले सकते है ।

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

SI. No.	LAND USE DESTRIUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	RESIDENTIAL	603.27	58.60
2.	COMMERCIAL	21.53	2.09
3.	INSTITUTIONAL & COMMUNITY FACILITIES	105.56	10.25
•	COMMUNITY FACILITIES	20.81	2.02
•	HEALTH	26.34	2.56
•	INSTITUTIONAL	58.41	5.67
4.	RECREATIONAL	154.43	15.00
5.	ROADS AND TRANSPORATION	144.75	14.06
TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN RESIDENTIAL ZONE		1029.55	100.00
TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN COMMERCIAL IN SECTOR-129		43.29	
TOTAL LAND AREA		1072.84	

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-151 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

SI. No.	LAND USE DESTRIUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	Roads and Transportation	7.809	12.00
2.	Recreational Green	9.762	15.00
3.	Commercial	2.603	4.00
4.	Institutional/Facilities	8.421	12.94
5.	Residential	36.485	56.06
Total		65.08 Acres or 26.35 Hectares	100%

कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण योजना में कुल हस्तान्तरित भूमि $1072.84 + 65.08 = 1137.92$ एकड.
(46,05,100.00 वर्ग मी0)

- कन्सेसनर एग्रीमेन्ट के तहत कुल हस्तान्तरित भूमि (1137.92 एकड = 46,05,100वर्ग मी0)
पर अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.5 = 69,07,650.00 वर्ग मी0
- योजना (सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134)
आवासीय उपयोग हेतु कुल निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल = 24,41,347.073 वर्गमी0 (603.27एकड.)
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40%
(वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमावली के अनुसार) = 9,76,538.820 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर. (आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित = 48,82,694.146 वर्ग मी0
भूमि 603.27 एकड.) के सापेक्ष में अधिकतम अनुमन्य
एफ.ए.आर.@ 2.0 (प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक
11.08.08 में लिए गये के अनुरूप)

- अनुमन्य ऊँचाई = कोई सीमा नहीं
- पाकेट सं0 बी - 5 के लिए प्रस्तावित ऊँचाई = 74.50 मीटर

पाकेट सं0 बी - 5 के लिए विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	प्रस्तावित क्षेत्रफल पाकेट सं0 बी - 5 (वर्ग मी0)
भूतल	7194.55
प्रथम तल	6112.02
द्वितीय तल	4949.14
तृतीय तल	2973.34
चर्तुथ तल	2893.37
पंचम तल	2841.39
छटवां तल	2892.21
सातवां तल	2892.21
आठवां तल	2914.74
नौवा तल	2818.86
दसवां तल	2892.21
ग्यारहवां तल	2914.74
बारवां तल	2892.21
तेरहवां तल	2818.86
चौदहवांतल	2914.74
पन्द्रहवां तल	2892.21
सोलवां तल	2818.86
सत्रहवां तल	2914.74
अट्ठारवां तल	2892.21
उन्नीसवां तल	2787.82
बीसवां तल	2047.60
तहखाना	817.64
कुल एफ.ए.आर.	70085.67
तहखाना	
तहखाना : प्रथम	17219.24
तहखाना : द्वितीय	16709.69
कुल क्षेत्रफल	33928.93
सेवा क्षेत्रफल	7129.52
कुल क्षेत्रफल (तहखाना एवं सेवा सहित)	111144.1

एफ0ए0आर0 विवरण-

Sl. No.	Description	Land Use	Date of Approval	Approved FAR (Sqm.) by NOIDA till date	Comm. Approved FAR area (Sqm.)	Revised FAR	Cum m. Rev sed FAR	Balance FAR (Sqm.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Primary School	I-3/1	Institutional	24.11.08	10026.23	10026.230		68,97,623.77
2.	Secondary School	I-2/1	Institutional	24.11.08	14006.13	24032.360		68,83,617.64
3.	Group Housing (Kalypso & Imperial Tower)	B1,B2 & B3	Residential	24.03.09	323628.295	347660.655		65,59,989.345
4.	Group Housing (PH-1,PH-2,PH-3,PH-4,PT-1,PT-2,TH-1 & TH-2)	B4	Residential	29.10.09	253144.64	600805.295		63,06,844.705
5.	Group Housing (Revise Kalypso & Imperial Tower)	B1, B2 & B3	Residential	11.10.11	(323628.295)	620789.370	343612.373 (19984.075)	62,86,860.627
6.	Group Housing (Aman)	Sector - 151	Residential	20.10.11	324587.222	945376.592		59,62,273.405
7.	Group Housing (Kosmos)	B-35, 36,37, 38,41 B & 43	Residential	01.11.11	7,53,831.85	16,99,208.44		52,08,441.555
8.	Primary School (Revise)	I-3/1	Institutional	18.11.11	(10026.23)	1702188.71	13006.50 (2980.27)	5205461.285
9.	Secondary School (Revise)	I-2/1	Institutional	18.11.11	(14006.13)	1707310.55	19127.97 (5121.84)	5200339.445
10.	Group Hosing (Klassic)	B-39 and B-40	Residential	25.11.11	110584.39	1817894.94		5089755.055
11.	Group Housing (Klassic IB & ONGC)	B-45	Residential	---	88255.377	1906150.317		5001499.678
12.	Group Housing (Knigh Court)	B-5	Residential	—	70085.67	1976235.987		4931414.008
					1906150.317			

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल

=

7920.04 वर्ग मी0

प्रस्तावित एफ0ए0आर0

=

70085.67 वर्ग मी0

Map for proposed Building is per Bye Laws. Submitted for approval, please.

Pl. Asstt. Arch. Architect

प्रतिलिपि:

- मुख्य परियोजना अभियन्ता, नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
- विशेष कार्याधिकारी (भूलेख), नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
- मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।

नाम.....
पद.....

नौएडा

राजपाल कौशिक
मुख्य वास्तुविद नियोजक
नौएडा